

**विक्रय पत्र (कृषि भूमि)
(जो लागू न हो काट दें)**

यह विक्रय पत्र आज दिनांक.....को श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
उम्र.....पेशा.....निवासी-ग्राम.....मोहल्ला.....मकान
नम्बर.....तहसील.....जिला.....राज्य.....भारतीय नागरिक, पैन
नम्बर.....तथा पहचान पत्र का प्रकार/संख्या.....

विक्रेता/ विक्रेतागण प्रथम पक्ष

एवं

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... उम्र.....पेशा.....निवासी
ग्राम.....मोहल्ला.....मकान नम्बर.....तहसील.....जिला.....
राज्य.....भारतीय नागरिक, पैन नम्बर.....तथा पहचान पत्र का प्रकार/संख्या.....

क्रेता/क्रेतागण द्वितीय पक्ष

के मध्य.....(स्थान) में निष्पादित किया गया है।

प्रथम पक्ष कृषि भूमि खसरा संख्या.....कुल क्षेत्रफल..... में से
क्षेत्रफल.....हे0, गाटा संख्या.....स्थित
ग्राम.....परगना.....तहसील.....जनपद.....राज्य.....का संक्रमणीय
भूमिधर एवं स्वामी है।

विक्रेता/विक्रेतागण के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक से सम्बन्धित विलेख के
पंजीकरण का विवरण निम्नवत है:-

- 1- उप निबन्धक कार्यालय
- 2- पंजीकरण का दिनांक.....
- 3- बही नम्बर 1/3 की जिल्द संख्या.....
- 4- विलेख की पंजीकरण संख्या.....

अथवा

उक्त अचल सम्पत्ति विक्रेता/विक्रेतागण को वरासतन प्राप्त हुई है।

अथवा

उक्त अचल सम्पत्ति का स्वामित्व विक्रेता/विक्रेतागण को मा० न्यायालय..... द्वारा वाद
संख्या.....में पारित निर्णय दिनांक.....के प्रभाव से प्राप्त हुआ है।

(नोट-सम्बन्धित अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक/स्वामित्व के सम्बन्ध में पक्षकार उपरोक्त 03
विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं अथवा यदि सम्बन्धित अचल सम्पत्ति का स्वामित्व
विक्रेता/विक्रेतागण को किसी अन्य विधिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ है तो उपरोक्त विकल्पों के स्थान
पर उनका विवरण दिया जा सकता है।)

विक्रीत अचल सम्पत्ति का विवरण:-

1. सम्पत्ति का प्रकार-कृषि भूमि
2. ग्राम का नाम तथा ग्राम कोड-
3. खसरा नम्बर-
4. कुल क्षेत्रफल-.....हेक्टेयर
5. विक्रीत क्षेत्रफल-.....हेक्टेयर
6. वृक्षों की संख्या-.....(आयु या व्यास).....
7. सड़क की स्थिति-.....
8. परगना.....
9. तहसील.....
10. जिला.....
11. चौहद्दी-
पूरब.....पश्चिम.....उत्तर.....दक्षिण.....
12. 200 मीटर की त्रिज्या का नजरी नक्शा/राजस्व नक्शा संलग्न है।
13. विक्रीत भूमि की आबादी/अकृषिक गतिविधि से दूरी.....मीटर।
14. विक्रीत भूमि में स्थित निर्माण का विवरण (यदि कोई निर्माण हो)
क- निर्माण की श्रेणी.....
ख- आच्छादित क्षेत्रफल.....
ग- निर्माण का वर्ष.....

(नोट- विक्रीत कृषि भूमि में यदि कोई निर्माण स्थित न हो तो निर्माण के विवरण के स्थान पर "विक्रीत कृषि भूमि में कोई निर्माण नहीं है" अंकित करें)

उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है। प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।

चूंकि प्रथम पक्ष को अपने/अपनी निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता है। इसलिए भूमि को रू०.....में विक्रय का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा गया जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य उक्त सम्पत्ति के पूर्व में हुए विक्रय अनुबन्ध के पंजीकरण का विवरण निम्नवत है:-

- क- निष्पादन का दिनांक.....
- ख- पंजीकर्ता उप निबन्धक कार्यालय.....
- ग- पंजीकरण का दिनांक.....

घ- बही नं० 1 की जिल्द संख्या.....

ड.- विलेख की संख्या.....

च- विक्रय अनुबन्ध के समय प्रथम पक्ष को दी गयी अग्रिम धनराशि रू०

छ- विक्रय अनुबन्ध पर अदा किया गया स्टाम्प शुल्क रू०.....

अथवा

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य उक्त सम्पत्ति के विक्रय हेतु, पूर्व में कोई विक्रय अनुबन्ध निष्पादित नहीं हुआ है।

(नोट- प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में कोई विक्रय अनुबन्ध निष्पादित होने या न होने की दशा में पक्षकार उपरोक्त दोनों विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं।)

अतः यह विक्रय पत्र निम्न शर्तों/अधिकारों/दायित्वों के अधीन निष्पादित किया जाता है:-

1. प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से उक्त विक्रीत भूमि के प्रतिफल की धनराशि रू०नकद/ड्राफ्ट/चेक/ई-फण्ड ट्रान्सफर द्वारा प्राप्त कर लिये हैं तथा अब कुछ भी लेना शेष नहीं है।
2. विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
3. विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिये प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
4. इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी, वारिस इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
5. इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
6. विक्रीत कृषि भूमि का मूल्यांकन निष्पादन तिथि.....को प्रभावी मूल्यांकन दर सूची दिनांकके पृष्ठ.....के क्रमांक.....एवं कॉलम.....के अनुसार किया गया है। जिससे विक्रीत भूमि का आकलित मूल्यांकन रू०..... होता है।

(नोट-विक्रीत कृषि भूमि में यदि कोई निर्माण या वृक्ष मौजूद है तो उनका मूल्यांकन अलग-अलग वर्णित किया जायेगा, इसके उपरान्त कुल मूल्यांकन अलग वर्णित किया जायेगा।)

7. इस विलेख में नियमानुसार रू०का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।
8. स्टाम्प शुल्क अदायगी का विवरण-
- क- गैर न्यायिक स्टाम्प (नॉन ज्युडिशियल) रू०.....
- ख- ई-स्टाम्प संख्या-.....रू०.....
- ग- भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-10ए के अधीन निर्गत प्रमाण पत्र रू०.....
9. इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प शुल्क देने का दायित्व क्रेता का होगा।
10. विक्रीत भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित नहीं किया गया है।
11. विक्रेता/विक्रेतागण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं/नहीं है।
12. अन्य विवरण.....
- (नोट-विक्रीत कृषि भूमि अथवा संव्यवहार के सम्बन्ध में पक्षकार कोई अन्य तथ्य वर्णित करना चाहते हैं तो वे बिन्दु संख्या-12 में वर्णित कर सकते हैं।)

अतएव उपरोक्त शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता/विक्रेतागण

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता/क्रेतागण

साक्षीगण

1. (हस्ताक्षर)

साक्षी का नाम.....पिता/पति का नाम.....

निवास स्थान.....पहचान पत्र का प्रकार एवं संख्या.....

2. (हस्ताक्षर)

साक्षी का नाम.....पिता/पति का नाम.....

निवास स्थान.....पहचान पत्र का प्रकार एवं संख्या.....